

02903

BACHELOR'S DEGREE PROGRAMME**Term-End Examination****December, 2016****ELECTIVE COURSE : COMMERCE****ECO-007 : ELEMENTS OF STATISTICS***Time : 2 hours**Maximum Marks : 50**Weightage : 70%**Note : There are three sections and all are compulsory.***SECTION - A**

1. Fill in the blanks with appropriate word(s) given in brackets : 5x1=5
- In random sampling every unit of the universe has _____ chance of selection. (equal/unequal)
 - A less than ogive has a tendency to _____. (rise/fall).
 - Greater the value of a measure of variation, _____ is the degree of uniformity in the data. (smaller/larger)
 - Rectangles are an example of _____ dimensional diagram. (one/two)
 - The number of typing errors on a page is an example of _____ variable. (discrete/continuous)

2. State whether the statements given below are True or False. $5 \times 1 = 5$

- (a) There is no difference between census and sample enquiry.
- (b) One dimensional diagram represents only length.
- (c) The data need not be arrayed before determining the median value.
- (d) The sum of absolute deviations is the least from median.
- (e) In a symmetrical distribution, the value of mean, mode and median is always unequal.

SECTION - B

Attempt any two of the following :

3. (a) Draw a histogram corresponding to the following data : $10+5$

Years	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Exports (000 'tons)	40	45	56	62	58	46	52
Amount (₹ lakhs)	22	22	36	42	40	36	36

- (b) What is 'false base line' ? State its use.

4. (a) Calculate the arithmetic mean from the following data : $10+5$

No. of disputes (in a year)	0	1	2	3	4	5
No. of companies	10	10	31	35	22	2

- (b) A shoe store informs that the following sizes of shoes were sold during the course of the day :
6, 8, 8, 7, 6, 7, 7, 5, 7, 9, 7, 10, 9, 6. Ascertain Mode.

5. (a) Determine the mean deviation about the **6+9** mean of the following distribution :

Class Interval	0 - 4	4 - 8	8 - 12	12 - 16
Frequency	4	8	2	1

- (b) The goals scored by a team in a football season are as follows :

Goals Scored in a match	0	1	2	3	4
No. of matches	17	9	6	5	3

Calculate co-efficient of variation.

6. (a) Write a note on two dimensional diagrams. **8+7**
Also give examples.
(b) Explain the method of computing Quartile Deviation.

SECTION - C

7. Distinguish between any two of the following : **5+5=10**
- (a) Census and sample investigation.
 - (b) Discrete variable and continuous variable.
 - (c) Histogram and Historogram.
 - (d) Variance and co-efficient of variation.
-

स्नातक उपाधि कार्यक्रम

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2016

ऐच्छिक पाठ्यक्रम : वाणिज्य

ई.सी.ओ.-007 : सांख्यिकी के तत्व

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

कुल का : 70%

नोट : इस में तीन खण्ड हैं तथा सभी अनिवार्य हैं।

खण्ड - अ

1. कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए : $5 \times 1 = 5$
- (a) यादृच्छिक प्रतिचयन (random sampling) में समस्ति के प्रत्येक मद के चयन किए जाने की _____ संभावना होती है। (समान/असमान)
 - (b) एक 'से कम तोरण' _____ क्रम में होता है। (आरोही/अवरोही)
 - (c) विचरण (Variation) की माप का मूल्य जितना अधिक होगा समंकों की एकरूपता भी उतनी ही _____ होगी। (कम/अधिक)
 - (d) आयत (Rectangles) एक उदाहरण है _____ विमीय आरेख के। (एक/द्वि)
 - (e) एक पृष्ठ पर टाइपिंग अशुद्धियों की संख्या एक उदाहरण है _____ चर का। (खण्डित/अखण्डित)

2. यह बताइए कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है और कौन-सा गलत : 5x1=5
- (a) संगणना तथा प्रतिदर्श अनुसंधान में कोई अंतर नहीं है।
 - (b) एक विमीय आरेख केवल लम्बाई का ही प्रतिनिधित्व करता है।
 - (c) माध्यिका का मूल्य निर्धारित करने से पहले समंकों को क्रम में रखने की आवश्यकता नहीं होती।
 - (d) माध्यिका से परम विचलनों का योग न्यूनतम होता है।
 - (e) एक सममितीय वितरण में माध्य, भूयिष्ठक तथा माध्यिका का मूल्य हमेशा असमान होता है।

खण्ड - ब

निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

3. (a) निम्नलिखित आंकड़ों के लिए एक कालिक चित्र (Historograms) की संरचना कीजिए : 10+5

वर्ष	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
निर्यात (000' टन)	40	45	56	62	58	46	52
राशि (लाख ₹)	22	22	36	42	40	36	36

- (b) मिश्या आधार रेखा से क्या तात्पर्य है? इस के उपयोग का उल्लेख कीजिए।
4. (a) निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर समांतर माध्य (Arithmetic Mean) की गणना कीजिए : 10+5

विवादों की संख्या : (एक वर्ष में)	0	1	2	3	4	5
कंपनियों की संख्या	10	10	31	35	22	2

- (b) एक जूता स्टोर ने सूचित किया कि सारे दिन में उसके निम्न मापों वाले जूतों का विक्रय हुआ था :
- 6, 8, 8, 7, 6, 7, 7, 5, 7, 9, 7, 10, 9, 6. भौयिष्ठक (Mode) ज्ञात कीजिए।
5. (a) निम्नलिखित वितरण के लिए माध्य से माध्य विचलन, $6+9$ (Mean deviation about the Mean) की गणना कीजिए :
- | | | | | |
|-------------|-------|-------|--------|---------|
| वर्ग अंतराल | 0 - 4 | 4 - 8 | 8 - 12 | 12 - 16 |
| आवृत्ति | 4 | 8 | 2 | 1 |
- (b) एक फुटबॉल सीजन (Season) में एक टीम द्वारा किए गए गोलों (Goals) की संख्या निम्नलिखित है :
- | | | | | | |
|-----------------------|----|---|---|---|---|
| एक मैच में किए गए गोल | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| मैचों की संख्या | 17 | 9 | 6 | 5 | 3 |
- विचरण गुणांक (Coefficient of Variation) की गणना कीजिए।
6. (a) द्विविमीय आरेख पर एक टिप्पणी लिखिए। उदाहरण $8+7$ भी दीजिए।
- (b) चतुर्थक विचलन की गणना की विधि की व्याख्या कीजिए।

खण्ड - स

7. निम्नलिखित में से किन्हीं दो में अंतर बताइए : $5+5=10$

- (a) संगणना तथा प्रतिदर्श अन्वेषण
 - (b) खंडित तथा अखंडित चर
 - (c) आयत चित्र (Histogram) तथा कालिक चित्र (Historigram)
 - (d) प्रसरण (Variance) तथा विचरण गुणांक (Coefficient of Variation)
-